

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 408] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 16, 1981/अग्रहायण 25, 1903
No. 408] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 16, 1981/AGRAHAYANA 25, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(आय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1981

सा० का० नि० 661 (अ) /सा० च०/वि०—केन्द्रीय सरकार, ईख (नियंत्रण) अधिनियम, 1966 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उसके उपखण्ड (1) में वर्णित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, और ईख की प्राधिकारिक न्यूनतम कीमत 13.00 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर जो 8.5 प्रतिशत या उससे कम बसुली से सहज है, जिसके साथ 8.5 प्रतिशत या उससे अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की बसुली की वृद्धि पर 15.2941 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को उस न्यूनतम कीमत के रूप में नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में तरसंबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वात पात्र प्रक्रिया वाले ईख के कारखाने के स्वामियों द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा उनके कारखाने द्वार पर या किसी अन्य केन्द्र पर 30 सितम्बर, 1982 को समाप्त होने वाले ईख वर्ष 1981-82 के

लिए परिदत्त ईख के लिए संवेद्य होगी किन्तु ऐसा, उक्त आदेश के खण्ड 3 क के अधीन उसके लिए संवेद्य रिबेट के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

अनुसूची

क्रम संख्या	कारखाने का नाम	ईख की रुपये में प्रति क्विंटल न्यूनतम कीमत
(1)	(2)	(3)
1.	मैसर्स ससबाह माली शुगर फैक्ट्री लि० माली नगर, जिला शोलापुर, महाराष्ट्र	16.52

[संख्या 3-5/81-एस० पी० वार्ड० (बी-2)]

सी० एन० राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16 December, 1981

G.S.R. 661.—(E)Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted and on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs.13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, hereby fixes the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price that shall be payable by the owner of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule or their agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or any purchasing centre for the sugar year 1981-82, ending the 30th September, 1982, subject to the rebates, payable, therefor, under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
1	2	3
1.	M/s Saswad Mali Sugar Factory Ltd., Mali Nagar, District Sholapur, Maharashtra.	16.52

[No. 3-5/81-SPY(DII)]

C. N. RAGHAVAN, Joint Secy. (Sugar)